

-:प्रेस नोट दिनांक 26.04.2021

थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

थाना फरीदपुर #bareillypolice द्वारा अभियुक्त आरिफ पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली द्वारा आक्सीजन गैस के सिलेण्डरों की कालाबाजारी करते हुए किया गया गिरफ्तार तथा उसकी निशादेही पर कालाबाजारी करने के लिये छिपाकर रखे गये 07 अद् आक्सीजन गैस सिलेण्डर (जिनमे 06 बडे व 01 छोटा सिलेण्डर बडे सिलेण्डरों में से एक सिलेण्डर खाली बाकी भरे हुए) बरामद।

कल दिनांक 25.04.2021 को थाना फरीदपुर पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी संक्रामक रोग के कारण काफी लोग संक्रमित होकर बीमार है, जिनके लिये आक्सीजन गैस के सिलेण्डरों की मारामारी मची हुई है। गैस सिलेण्डर उपलब्ध न होने के कारण आम जनमानस की जान खतरे में पडी है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर आरिफ पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना फरीदपुर जिला बरेली नामक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से आक्सीजन गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर अवैध रूप से शासन द्वारा निर्देशों की अवज्ञा करते हुए लोगों को धोखाधडी करके आक्सीजन गैस का सिलेण्डर बहुत महंगा मिल रहा है। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के परिजनों को निर्धारित मूल्य पर न वेचकर काफी ऊंचे दामों पर आक्सीजन गैस सिलेण्डर मोटा लाभांश कमाकर छिपते छिपाते विक्री कर रहा है। उक्त सूचना को नियमानुसार तस्दीक कराया गया। सूचना सही तस्दीक होने के आधार पर थाना पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आरिफ पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली को धोखाधडी करके आक्सीजन गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। निशादेही पर 07 अद् आक्सीजन गैस सिलेण्डर (जिनमे 06 बडे व 01 छोटा सिलेण्डर बडे सिलेण्डरों में से एक सिलेण्डर खाली बाकी भरे हुए) तथा गैस सिलेण्डर एक अद् आँक्सोमीटर गैज, एक अद् रिन्च, व एक अद् पाना चाँबी बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1- अभियुक्त आरिफ पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

➤ **थाना फरीदपुर पर पंजीकृत अभियोगों का विवरण-**

1- मु0 अ0 सं0 189/2021 धारा 188/269/270/419/420 भादवि 52/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व धारा 3 महामारी एक्ट

➤ **घटनस्थल:- मोहल्ला कानूनगोयान मजार के पास मस्कन अभियुक्त कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली**

➤ **बरामदगी का विवरण:-**

1- 07 अद् आक्सीजन गैस सिलेण्डर (जिनमे 06 बडे व 01 छोटा सिलेण्डर बडे सिलेण्डरों में से एक सिलेण्डर खाली बाकी भरे हुए)

2- एक अद् आँक्सोमीटर गैज,

3- एक अद् रिन्च,

4- एक अद् पाना चाबी

➤ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

उ0नि0 श्री राजकुमार, महिला उपनिरीक्षक श्रीमति मोनिका यादव, हैंड कां0 251 नरेशपाल सिंह, कां0 1438 सुरेशचन्द्र, कां0 अरविन्द वालियान, महिला आरक्षी खुशबू शर्मा थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)

प्रभारी निरीक्षक

थाना फरीदपुर, बरेली।